



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

---

9 अग्रहायण 1934 (श0)  
(सं0 पटना 640) पटना, शुक्रवार, 30 नवम्बर 2012

---

बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार

-----  
अधिसूचना

27 नवम्बर 2012

सं0 नि०प्रा०/नि० 1-04/2012/9989—चूँकि बिहार सहकारिता अधिनियम, 1935 की धारा-14 (क) में किये गये संशोधन एवं सहकारिता विभाग, बिहार सरकार की अधिसूचना संख्या 1273 दिनांक 01.03.2012 के क्रम में उक्त अधिनियम के तहत निर्बाधित सहकारी समितियों के प्रबंधकारिणी समिति, जो अधिक्रमित हैं या जिनकी कालावधि समाप्त होने वाली है, का निर्वाचन बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार के नियंत्रण, निदेशन एवं पर्यवेक्षण के अधीन कराया जाना है,

और, चूँकि उक्त परिप्रेक्ष्य में प्राधिकार द्वारा तत्काल 66 अनुसूचित जाति सहकारी समितियों का निर्वाचन उनके द्वारा अंगीकृत उपविधियों के आधार पर कराने का निर्णय लिया गया है।

और, चूँकि प्रत्येक अनुसूचित जाति सहकारी समिति में अध्यक्ष एवं सचिव सहित प्रबंधकारिणी समिति के सदस्य के कुल-15 पदों के लिए निर्वाचन कराया जाना है।

अतः बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार अधिनियम, 2008 की धारा-4 एवं बिहार सहकारिता अधिनियम, 1935 (यथा संशोधित, 2008) की धारा-14 'क' तथा सुसंगत नियमावलियों के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य निर्वाचन प्राधिकार एतद् द्वारा **परिशिष्ट-1** में अंकित कार्यक्रम के अनुसार **परिशिष्ट-2** में अंकित कुल 66 अनुसूचित जाति सहकारी

समितियों के अध्यक्ष एवं प्रबंधकारिणी समिति के सदस्यों के निर्वाचन हेतु, सविरोध निर्वाचन की स्थिति में, मतदान हेतु दिनांक 28.12.2012 (शुक्रवार) की तिथि नियत करता है तथा संबंधित समिति के मतदाताओं से अपेक्षा करता है कि वे संगत अधिनियम/ नियमावली/ प्राधिकार के निदेशों के अधीन प्रबंधकारिणी समिति के पदधारकों को निर्वाचित करें। ज्ञातव्य है कि इस उद्देश्य हेतु प्राधिकार द्वारा अपने पत्र संख्या 9678 दिनांक 18.10.2012 द्वारा मतदाता सूची तैयार करने के लिए कट-ऑफ-तिथि 31.08.2012 निर्धारित की गयी है।

संबंधित अनुसूचित जाति सहकारी समितियों के निर्वाचन पदाधिकारी प्राधिकार द्वारा नियत कार्यक्रम के अनुसार दिनांक 01.12.2012 (शनिवार) को संलग्न प्रपत्र-1 (**परिशिष्ट-3**) में सूचना निर्गत करना सुनिश्चित करेंगे। संबंधित समिति के सचिव/ प्रशासक का भी यह दायित्व होगा कि वे निर्वाचन कार्यक्रम की सूचना सभी सदस्यों को निश्चित रूप से पहुंचा दें।

सविरोध निर्वाचन की स्थिति में अध्यक्ष, सचिव एवं प्रबंधकारिणी समिति के सदस्यों के निर्वाचन हेतु मतदान का समय सुबह 7 बजे से अपराह्न 2 बजे तक होगा। मतगणना मतदान समाप्ति के यथाशक्य तुरंत पश्चात् उसी दिन शुरू की जायेगी।

आदेश से,

एन० एस० माधवन,

मुख्य चुनाव पदाधिकारी।

---

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,  
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।  
बिहार गजट (असाधारण) 640-571+100-डी०टी०पी०।  
Website: <http://egazette.bih.nic.in>